



मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

Madhya Pradesh Legislative Assembly Secretariat

Indira Gandhi Vidhan Bhawan,

Arera Hills, Bhopal (M.P.)

स मा चार

राज्यसभा द्विवार्षिक निर्वाचन, 2020

मध्यप्रदेश से तीन स्थानों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया आरम्भ

भोपाल : 6 मार्च, 2020.

मध्यप्रदेश से राज्यसभा के लिए रिक्त होने वाले तीन स्थानों की पूर्ति के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया आरम्भ हो गई है। आयोग द्वारा इस निर्वाचन के लिए मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री अवधेश प्रताप सिंह को रिटर्निंग ऑफिसर एवं संचालक श्री पुनीत कुमार श्रीवास्तव को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। विधानसभा भवन, भोपाल स्थित समिति कक्ष क्रमांक-02 (एम 02) को मतदान स्थल हेतु अधिकृत किया गया है। तदाशय की अधिसूचना आज रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी कर दी गई है।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश से रिक्त होने वाली राज्यसभा की तीन सीटों के लिए निर्वाचन होना है। राज्यसभा सदस्य श्री दिग्विजय सिंह, श्री प्रभात झा तथा श्री सत्यनारायण जटिया का कार्यकाल 9 अप्रैल, 2020 को समाप्त हो रहा है।

राज्यसभा की उक्त तीन सीटों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया 6 मार्च, 2020 से आरंभ होकर दिनांक 26 मार्च, 2020 तक चलेगी। इस अवधि में दिनांक 6 से 13 मार्च, 2020 में प्रतिदिन (लोक अवकाश के दिन को छोड़कर) पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन पत्र मध्यप्रदेश विधानसभा स्थित कार्यालय, रिटर्निंग ऑफिसर, राज्यसभा निर्वाचन, 2020 समिति कक्ष क्रमांक-2 में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच दिनांक 16 मार्च, 2020 अपराह्न 2:00 बजे से की जाएगी। नाम वापसी के लिए दिनांक 18 मार्च, 2020 को अपराह्न 3:00 बजे तक का समय निर्धारित है। आवश्यक हुआ तो मतदान दिनांक 26 मार्च, 2020 को प्रातः 9:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक होगा और तत्पश्चात मतगणना सम्पन्न होगी।

वि.स./ज.स./2020

(मुकेश मिश्रा)

दूरभाष : जनसंपर्क शाखा: (+91-755) 2523065, 2523037, 2440223 फैक्स: (+91-755) 2440238

ई-मेल : vidhansabha-mp@nic.in वेबसाइट : <http://www.mpvidhansabha.nic.in>